

## सफेद जहर का काला कारोबार: यूरिया, तेजाब, डिटरजेंट पाउडर, मोम से बनाया जा रहा था नकली दूध और घी

दतिया/इंदरगढ़



- डेयरी मालिक के साथ नौकरों के घर पर भी रखा मिला सामान
- 550 किलो मांम, 45 लीटर तेजाब, तीन बोरी यूरिया के साथ 820 लीटर घी और अन्य सामान जब्त

प्रशासन ने मंगलवार को इंदरगढ़ के दभैरा गांव में दबिश देकर नकली दूध और घी बनाने का कारखाना पकड़ा। मांम के पर बड़ी मात्रा में नकली दूध बनाने की सामग्री देखकर अफसर भी दंग रह गए। मांम के पर यूरिया, तेजाब, रिफाइंड तेल और डिटरजेंट पाउडर मिला। इसी का उपयोग कर नकली दूध और घी बनाया जा रहा था। यही नहीं, डेयरी पर जो मजदूर काम करते थे उनके यहां भी दबिश दी ताे वहां भी नकली घी और दूध बनाने का सामान मिला।

प्रशासन ने मांम से 10 बोरी (करीब 300 किलो) मिल्क पाउडर, 540 लीटर रिफाइंड ऑइल, 550 किलो रासायनिक केमिकल मांम, 45 लीटर तेजाब, 5 लीटर वाशिंग लिक्विड शोप, 820 लीटर घी, तीन बोरी यूरिया व अन्य सामान जब्त किया। बताया जा रहा है कि यह फैक्ट्री सालों से चल रही थी। मिलावट से मुक्ति अभियान में यह जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है।

15 जनवरी शुक्रवार को इंदरगढ़ में ही धाकड़ दूध डेयरी पर मिलावटी दूध बनाने का मामला सामने आया था। इस मामले में इंदरगढ़ पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी। इस डेयरी पर नकली दूध पकड़े जाने के बाद मंगलवार को एसडीएम अनुराग निंगवाल और खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश निम इंदरगढ़ कस्बे की अन्य डेयरियों पर पहुंचे। डेयरी संचालकों ने दभैरा में नकली दूध और घी बनाने की जानकारी दी।

एसडीएम दोपहर में दभैरा गांव में रामबाबू पटसारिया के यहां पहुंचे तो घर के पीछे नकली दूध और घी बनाने का सामान मिला। एसडीएम ने इंदरगढ़ टीआई वायएस तोमर को फोर्स के साथ बुलाया। पुलिस के साथ घर के अंदर दबिश दी तो बड़ी मात्रा में नकली दूध बनाने की सामग्री देखकर अफसर हैरान रह गए। मकान मालिक रामबाबू पटसारिया के यहां से लगभग 600 लीटर घी, यूरिया की खाली बोरियां, तेजाब सहित अन्य सामान जब्त किया गया।

नौकरों के घर से भी बड़ी मात्रा में मिला नकली दूध बनाने का सामान

इसके बाद पटसारिया के यहां काम करने वाले दशरथ सिंह चौहान, रज्जन, सुदामा, अमृत चौहान के यहां भी दबिश दी गई तो इन सभी के यहां भी नकली दूध और नकली घी बनाने का सामान मिला। डेयरी पर ही काम करने वाले बल्लू पाल और नारायण पाल के मकान से तीन बोरी मिल्क पाउडर, तीन टिन रिफाइंड ऑयल, तीन डिब्बा वाशिंग लिक्विड शॉप, चार ड्रम रासायनिक मोम, 30 लीटर तेजाब, दो खाली बोरी यूरिया, एक डीएपी खाद की बोरी मिली।

इसके बाद टीम दशरथ सिंह चौहान के मकान पर पहुंची तो यहां से सात बोरी मिल्क पाउडर, 15 टिन रिफाइंड ऑयल, 150 किलो तेजाब, 400 मोम जैसा और एक पांच किलो का घी का डिब्बा मिला। अब अफसर जांच के बाद रिपोर्ट कलेक्टर संजय कुमार को देंगे। कलेक्टर के आदेश पर बुधवार को डेयरी संचालक और उसके मजदूरों पर एफआईआर दर्ज हो सकती है।

घी जम सके, इसलिए मिलाते थे मांम

नकली दूध और घी बनाने से जुड़े छापे में अंचल में पहली बार मोम भी मिला। दभैरा गांव में दी गई दबिश में कुल 550 किलो रासायनिक केमिकल मांम जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि इस मांम का उपयोग नकली घी बनाने में किया जाता था। मांम इसलिए मिलाया जाता था ताकि पूरी तरह केमिकल से बनाया गया नकली घी जम सके।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/mp/gwalior/datiya/news/fake-milk-and-ghee-was-being-made-from-urea-acid-detergent-powder-wax-128141169.html>